



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 1977/आषाढ़ 15, 1899

No. 289] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 1977/ASADHA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi the 6th July, 1977

S.O. 528 (E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the resignation of Shri Banarsi Das, a member elected to the Council of States from Uttar Pradesh, before the expiration of his term of office,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 25 July, 1977 (Monday)

[No. 100/CS-UP/5/77(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1977

क्रा० आ० 528 (अ).—उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री बनारसी दास द्वारा अपनी पदावधि के अवमान से पूर्व त्याग पत्र दे दिये जाने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति हो गई है,

(2267)

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई शक्ति को भरने के लिए तारीख 25 जुलाई, 1977 (सोमवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[म० 100/रा० स०-उ० प्र०/5/77(1)]

S.O. 529 (E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/5/77(1) dated 6 July, 1977 —

- (a) 13 July, 1977 (Wednesday), as the last date for making nominations,
- (b) 14 July, 1977 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations,
- (c) 16 July, 1977 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures,
- (d) 23 July, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) 25 July, 1977 (Monday), as the date before which the election shall be completed

[No. 100/CS-UP/5/77(2)]

का० प्रा० 529 (अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना म० 100 रा० स०-उ० प्र० 5/77(1), तारीख 6 जुलाई, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- | | |
|--|-------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख | 13 जुलाई, 1977 (बुधवार), |
| (ख) नामनिर्देशनों की सबीक्षा की तारीख | 14 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार); |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख | 16 जुलाई, 1977 (शनिवार); |
| (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा | 23 जुलाई, 1977 (शनिवार), तथा |
| (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा | 25 जुलाई, 1977 (सोमवार) |
- एतद्वारा नियत करता है।

[म० 100 रा० स०-उ० प्र० 5/77(2)]

S.O. 530 (E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission hereby fixes the hours from 10-30 a.m. to 3-30 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/5/77(1), dated 6 July, 1977.

[No. 100/CS-UP/5/77(3)]

का० प्रा० 530 (अ). —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना म० 100/रा० स०-उ० प्र०/5/77(1), तारीख 6 जुलाई, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न का तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[म० 100/रा० स०-उ० प्र०/5/77(3)]

S.O. 531 (E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby designates the Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/5/77(1), dated 6 July, 1977.

[No. 100/CS-UP/5/77(4)]

का० आ० 531 (प्र)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-उ० प्र० 5/77(1), तारीख 6 जुलाई, 1977 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को एतद्वारा रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा० सं०-उ० प्र० 5/77(4)]

S.O. 532 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Under Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/5/77(1) dated 6 July, 1977, in the performance of his functions

[No. 100/CS-UP/5/77(5)]

By order,
A. N. SEN, Secy

का० आ० 532 (प्र)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-उ० प्र० 5/77(1), तारीख 6 जुलाई, 1977 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए अवर सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा० सं०-उ० प्र० 5/77(5)]

आदेश से

ए०एन० सन, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

